FINANCIAL EXPRESS

and other Coprehensive Income (after tax)] (35.85) (53.10) The above Un-audited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and taken on record at the meeting of the Board of Directors held on February 13, 2019. The Statutory Auditor of the company have carried out limited review as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and the related report is being submitted to the concerned stock exchanges.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock Exchanges Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and hosted on the company's website at (http://www.stariitpower.com)

For Starlit Power Systems Limited KAMALJEET SINGH JASWAL Director DIN 02340493

Place: New Delhi Date: Feburary 13, 2019

LANDMARK DALMIA GROUP

Landmark Property Development Company Limited

Regd. Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 [CIN - L13100DL1976PLC188942] Telephone No.: (011) 43621200 FAX: (011) 41501333 Email: info@landmarkproperty.in Website: www.landmarkproperty.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

	Quarter	Quarter	Quarter	the second	(Rs. In Lakh:	
Particulars'	ended 31/12/2018 (Unaudited)	ended 30/09/2018 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2017 (Unaudited)	31.12.2018	Nine months ended 31.12.2017	Year Ended 31.03.2018
Total income from operations	26.67	26.84	The second second	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Net Profit / (Loss) for the period (before tax &	and the second second second	20.04	82.77	82.02	241.83	269.37
Net Profit / (Loss) for the period before	7.09	5.34	36.56	16.52	89.64	62.71
Net Profit / (Loss) for the period offer to	7.09	5,34	36.56	16.52	89.64	62.71
Total Comprehensive Income for the activity	.5.51	4.04	28.08	12,71	66.82	52.56
ax and other Comprehensive income (after Tax)	. F. E.4					02,00
quity Share Capital (Face value of Re 1 each)	5.51	4.04	28.08	12.71	66.82	. 50 05
eserves (excluding Revaluation D.	1341.43	1341.43	1341.43	1341.43	1341.43	53.35
arning Per Share (Face Value of Po 1 arning	-				11	4766.84
of annualised)			Committee of the second			+100.04
luted :	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.04
ite:	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.04

There were no exceptional items during the quarter/Nine Months ended 31st December, 2018

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations; 2015. The full format of the Quarterly/ nine month Financial Results are available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's

The above results for the quarter/Nine Months ended 31st December,2018 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14th, 2019. The Statutory Auditors have expressed an

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in the companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act' 2013.

for Landmark Property Development Company Limited

Place : New Delhi

Dated: 14th February, 2019

Gaurav Dalmia (Chairperson and Managing Director) B)

FINANCIAL EXPRESS

BHARAT SEATS LIMITED CIN: L34300DL1986PLC023540

Regd. Office: 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 E-mail: seats@vsnl.net: WEBSITE: www.bharatseats.com. Phone: +91 9643339870-74: Fax: 0124-2341188 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2018

Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended 31.12.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2018 Particulars No Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) 20,380.44 Total Income from Operations 21,906.72 71,025.24 74,881.16 Net Profit for the period (before Tax, 2,518.15 Exceptional and/or Extraordinary items) 874.90 4,350.0 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items 385.20 1,054.59 874.90 2,518.15 3,106.42 4,350.02 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items 270.36 684.09 584.37 1,666.92 2,044.96 2,821.5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 265.54 679.27 584.53 1.652.52 2.045.44 2.802.30 6 Equity Share Capital 628.00 628.00 628.00 628.00 628.00 628.00 Other Equity (Reserves) (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the year" 8,048.05 Earnings Per Share (face value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (In Rs.) (not annualised) a) Basic (Rs.) 8.9 (a) Diluted (Rs. 0.86 2.18 5.31 6.5 8.99

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements). Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financia Results are available on the websites of the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, and on the Company's website www.bharatseats.com'

The above financial results of Bharat Seats Limited ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) 34 " Interim Financial Reporting" as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and relevant amendment rules thereafter The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held of

14th February, 2019. The above financial results of "Bharat Seats Limited" for quarter and nine months ended December 31, 2018 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. For BHARAT SEATS LIMITED

Place: Gurugram Date: 14.02.2019

(Rohit Relan Chairman and Managing Director

APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED

(Formerly Apex Home Finance Limited) CIN: L65910DL1985PLC021241

Regd. Office: L-5&6, Green Park Extension, New Delhi – 110016

Email: contact@apexfinancials.in; Website: www.apexfinancials.in; Tele-Fax: +91 11 40348775

EXTRACTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

				(113. III Ed03)
SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2018	Nine Months Ended 31.12.2018	Quarter Ended 31.12.2017
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total Income from operations	71.46	160.02	1.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16.40	39.80	(45.57)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.40	39.80	(45.57)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.34	29.48	(45.57)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	12.34	29.48	(45.57)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	591.99	591.99	591.99
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year**	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)			
	Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	0.21 0.21	0.50 0.50	_ _
44.50				

* Reserves as at March 31, 2018 was Rs. 1790.93 Lacs NOTES:

- The above unaudited financial results for quarter and nine months ended on December 31, 2018 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on 14.02.2019 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 14.02.2019. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid financial results
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are available on the Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the Company's Website at www.apexfinancials.in. By the Order of the Board For Apex Capital and Finance Limited

Managing Director DIN: 00039567 Date: 14.02.2019

LANDMARK

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before tax &

Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after

tax and other Comprehensive income (after Tax)

Equity Share Capital (Face value of Re 1 each)

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)

Earning Per Share (Face Value of Re 1 each)

Total income from operations

Exceptional items)

(not annualised)

Place: New Delhi

Dated: 14th February, 2019

Basic

Diluted

Note:

(after Exceptional items)

(after Exceptional items)

RANDER CORPORATION LIMITED

CIN: L99999MH1993PLC075812 Reg. Office: 14/15, Madhav Kripa, Boisar Palghar Road, Boisar (W), Palghar-401501

Nine Months Ended On 31st December, 2018

Tel. No. 022-28939838 Email ID: info@randergroup.com Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and

(Rs. in Lacs)

(Shekhar Singh)

Company Limited

Quarter

ended

31/12/2018

(Unaudited)

26.67

7.09

7.09

5.51

1341.43

0.00

0.00

There were no exceptional items during the quarter/Nine Months ended 31st December, 2018

Accounting Standards), Rules 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act 2013.

PLACE: MUMBAI

DATE: 14.02.2019

Landmark Property Development

Regd. Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

[CIN - L13100DL1976PLC188942] Telephone No.: (011) 43621200 FAX: (011) 41501333

Email: info@landmarkproperty.in Website: www.landmarkproperty.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

ended

30/09/2018

(Unaudited)

26.84

5.34

5.34

4.04

4.04

0.00

0.00

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Financial Results, filed, with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ nine month Financial Results are available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's

The above results for the quarter/Nine Months ended 31st December,2018 has been reviewed by the Audit Committee and approved

by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14th, 2019. The Statutory Auditors have expressed an

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in the companies (Indian

1341.43

ended

31.12.2017

(Unaudited)

82.77

36.56

36.56

28.08

28.08

0.02

0.02

1341.43

				(₹. in Lacs)
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Previous Quarter Ended	Quarter Ended
		31/12/2018	30/09/2018	31/12/2018
1	Total income from operations	51.05	4.83	108.59
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items)	5.17	4.80	16.82
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.17	4.80	16.82
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and / or Extraordinary items)	3.80	3.57	12.45
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit / (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive Income			
	(after tax)]	3.80	3.57	12.45
6	Equity Share Capital	1233.70	1233.70	1233.70
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as			
	shown in the Balance Sheet of previous year)	766.16	762.36	766.16
8	Earnings Per Share (before extraordinary			
	items) (of Rs. 10/- each)	0.03	0.03	0.10
	Basic:			

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Monthly Results filed with thé Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly yearly Financial Results is vailable on the www.bseindia.com and www.randergroup.com

Nine months Nine months

(Unaudited) (Unaudited)

ended

31.12.2018

82.02

16.52

16.52

12.71

12.71

0.01

0.01

for Landmark Property Development Company Limited

(Chairperson and Managing Director)

(₹ in Millions except per share data)

Nine months ended Year ended

1341.43

ended

31.12.2017

241.83

89.64

89.64

66.82

66.82

0.05

0.05

1341.43

FOR RANDER CORPORATION LIMITED

AMARCHAND RANDER (MANAGING DIRECTOR)

(Rs. In Lakhs

Year

Ended

31.03.2018

(Audited)

269.37

62.71

62.71

52.56

53.35

1341.43

4766.84

0.04

0.04

Gauray Dalmia

Haldyn Glass Limited

CIN No.L51909GJ1991PLC015522

Registered Office: Village Gavasad, Taluka Padra, Dist. Vadodara - Gujarat - 391 430 Tel:02662242339, Fax: 02662 245081, E-mail: baroda@haldyn.com, Web: www.haldynglass.com **Statement Of Standalone Financial Results For** The Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2018

Sr.			QUARTER ENDED			NINE MONTHS ENDED			
No.		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
				₹In L	.akhs				
1.	Income From Operations	6,177.37	5,669.46	4,201.71	16,520.66	12,446.10	16,903.19		
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax	462.73	395.89	209.53	1,069.51	654.99	717.56		
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax	316.70	282.22	160.72	846.93	463.90	647.22		
4.	Total Comprehensive Income for the period	328.76	277.19	193.17	874.04	466.82	670.24		
5.	Paid-up equity share capital	537.52	537.52	537.52	537.52	537.52	537.52		
	(Face value Re.1 per share)								
6.	Earnings per share (* Not Annualised)								
	(Face Value of Rs.1 each, fully paid)								
	a. Basic (in Rs.)	*0.59	*0.53	*0.30	*1.58	*0.86	1.20		
	b. Diluted (in Rs.)	*0.59	*0.53	*0.30	*1.58	*0.86	1.20		
N	otos:								

- 1. The above results, as reviewed by the Audit Committee, have been taken on record by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on February 14, 2019
- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CF/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website, www.haldvnglass.com For and on behalf of the Board

Mumbai: February 14, 2019





T.N.SHETTY Managing Director

🚺 INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand) Phones: +91 5947 269000/269500/275320, Fax: +91 5947 275315/269535

Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com, CIN: L24111UR1983PLC009097

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2018 (₹ In Lacs, except as stated)

			Quarter En	ded	Nine Mont	Year Ended	
SI. No.	Particulars	31.12.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018
140.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	1,24,015	98,619	1,36,331	3,72,821	3,13,407	4,16,527
2	Earning before Interest, Depreciation and Tax (EBDITA)	10,667	9,707	11,877	33,937	22,868	33,488
3	Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	5,350	5,101	6,690	18,508	8,576	14,854
4	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	5,350	5,101	6,690	18,508	8,576	14,854
5	Net profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	3,497	3,431	4,366	12,084	5,726	9,808
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	3,497	3,431	4,366	12,084	5,726	9,864
7	Equity Share Capital	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096
8	Reserves (excluding revaluation reserves) as per the audited balance sheet of previous year						91,017
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	11.29	11.08	14.10	39.03	18.49	31.68

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Nine Months Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine Months Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.indiaglycols.com)

for INDIA GLYCOLS LIMITED

Place: Noida Date: 14th February, 2019

U.S. BHARTIA Chairman and Managing Director DIN: 00063091

REFOILS & SOLVENT

Regd.Office: State Highway No.41, Nr. Sujanpur Patia, Sidhpur-384151.

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Third Quarter and Nine Months ended 31st December, 2018

(Rs.In Lakhs except per share data Nine Months Particulars Quarter ended | Quarter ended Quarter ended 31.12.2018 30.09.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.03.2018 (Unaudited) Total income from operations (net) 0.88 39.55 402.05 62.23 12,911.38 18,627.08 Net Profit / (Loss) for the period (before tax (35.27)75.67 30.46 518.47 190.57 (309.51)after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (65.20)75.67 (2798.16)488.53 (2,638.05)(3,108.34)(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (51.48)64.22 2.060.66 303.31 147.18 (171.78)(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising (51.22)64.47 2.061.65 304.07 150.15 (167.81)Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 2637.90 2637.90 2637.90 2637.90 2637.90 2637.90 **Equity Share Capital** Earnings Per Share (of Rs. 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) -1.56 0.11 (0.04)0.05 0.23 (0.13)Basic

Diluted Note

> The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the Meeting held on 14th February, 2019 The above is an extract of the detailed format of Unannual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unannual Financial Results are available on the Stock Exchange websites and Compny's website on www.gokulgroup.com

0.05

1.56

0.23

0.11

(0.04)

The above results for the quarter ended on December 31, 2018 has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable

Date: 14.02.2019 Balvantsinh C. Raiput Place: Ahmedabad Chairman & Managing Director



(0.13)

The above statement of financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 14th February 2019.

for and on behalf of Board of Directors Sd/-

7.01

Place: Hyderabad Dr. D.K.Likhi Date: 14th February 2019



inmodified opinion on the aforesaid results.

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED

(CIN: L14292TG1973GOI001660)

Registered & Corporate Office: PO Kanchanbagh, Hyderabad - 500058

Phone: 040-24184000, Fax:040-24340214, 24340280, 24340371 Website: www.midhani-india.in

Quarter ended

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2018

П	SI.	Doutionland	Q	uarter end	ea	Nine mon	Year ended	
П	No.	Particulars	31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018
П	140.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
П	1	Total revenue from operations	1,532.31	1,151.65	1,471.37	3,744.14	3,552.00	6,660.78
	2	Net Profit for the period (before tax, exceptional items and/or extra ordinary items) #	228.93	321.08	278.05	761.95	747.55	1,918.69
	3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items and/or extra ordinary items) #	228.93	321.08	341.87	761.95	811.37	1,982.51
	4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items and/or extra ordinary items) #	169.06	205.40	264.76	502.65	537.77	1,312.62
	5	Other comprehensive income / (loss) (net of tax)	(2.02)	24.53	(2.85)	12.88	15.03	(9.63)
	6	Total comprehensive income for the period (4+5) [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income for the period (after tax)]	167.04	229.93	261.91	515.53	552.80	1,302.99
	7	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,873.40	1,873.40	1,873.40	1,873.40	1,873.40	1,873.40
	8	Other equity excluding revaluation reserves						6,016.95
	9	Earnings per share (Basic & Diluted) (₹)						

Notes:

(not annualised)

1 The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half Year ended Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Half Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.midhani-india.in)

1.10

2 #Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS.

0.90

- 3 Effective April 1, 2018, the company has adopted Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" using the cumulative effect method. The standard is applied retrospectively only to contracts that are not completed as at the date of initial application and hence the comparative information is not restated. The adoption of the standard did not have any material impact on the financial statements of the company.

Chairman & Managing Director

व्यार को

को पांच-

सात दिन

दूसरे सह

त में जेल

रुपए के

तार किया

ने सक्सेना

गर विस्तृत

ो अदालत

न्रवरी की

ने बुधवार

किया था।

से दायर

क्सेना ने

थी और

मारी और

ने नहा

ड़े मिजाज

मंडल के

गनमंत्री ने

र के लिए

में रूद्रपुर

ही राज्य

रली

लैडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेन्ट कम्पनी LANDMARK

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 [CIN: L13100DL1976PLC188942] टेलीफोन नं. (011) 43621200, फैक्स नं. (011) 41501333 ई-मेल: info@landmarkproperty.in, वेबसाईट: www.landmarkproperty.in 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में) विवरण समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त नौ महीने समाप्त नौ महीने समाप्त वर्ष 31.12.2018 30.09.2018 31,12,2018 31.72.2018 31,12,2017 31.3.2018 (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अर्केक्षित) परिचालनों से कुल आय 26.67 26.84 82.77 82.02 241.83 269.37 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं विशिष्ट 7.09 5.34 36.56 16.52 89.64 62.71 कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट 7.09 5.34 36.56 16.52 89.64 मदों के बाद) 62.71 कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट 5.51 4.04 28.08 12.71 66.82 52.56 मदों के बाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर कें 5.51 4.04 28.08 12.71 66.82 53.35 बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आयं (कर के बाद) से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति) 1341.43 1341.43 1341.43 1341.43 1341.43 1341.43 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) 4766.84 आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 1/- प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं) मल 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 0.04 तरल 0.00 0.00 0.01 0.04

टिप्पणी: 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही/ नौ महीने के दौरान कोई विशिष्ट मद नहीं थी।

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही/ नौ महीने वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही/ नौ महीने वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट www.landmarkproperty.in पर उपलब्ध हैं।

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही/ नौ महीने के उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 फरवरी, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों ने उपरोक्त परिणामों पर असंशोधित अभिमत प्रकट किया है।

इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत क्रम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के लिए हस्ता./-

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 14 फरवरी, 2019

गौरव डालमिया (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)



महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

निगम एवं पंजीकृत कार्यालयः महानगर दूरसंचार सदन, 5वाँ तल, 9, सीजीओ काम्प्लेक्स, जोधी रोड. नई दिल्ली 110003, फोन: 011-24319020 फैक्स: 011-24324243 सीआईएन: L32101DL1986GOI023501

	31.12.2018 को समाप्त हुई तिमाही तथा	नौ माह के लि	^{32101DL} 1986GO10 ए एकल अनंकी	²³⁵⁰¹ क्षेत वित्तीय प्रा	रेणामों का सारांचा	L 1 12
				एकल	C II II AN CITATRI	. (रु. करोड़ में)
南		. समाप्त	तिमाही	समा	प्त नौ माह	समाप्त वर्ष
सं	विवरण	31.12.2018 को समाप्त तिमाही	31.12.2017 को समाप्त पिछले • वर्ष की तदनुसार तिमाही	31.12.2018 को समाप्त अवधि हेतु वर्ष के अद्यतन आंकड़े	पिछले वर्ष 31.12.2017 को समाप्त अवधि हेतु वर्ष के अद्यतन आंकड़े	31.03.2018 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकडे
4	प्रचालनों से कुल आय	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
2		692.42	852.64	1,921,42	2,456.40	3,116.42
3	अपवादात्मक मदों तथा कर से पूर्व अविध हेतु निवल लाम / (हानि) कर पूर्व अविध हेतु निवल लाम / (हानि) (अपवादात्मक मदों के पश्चात्)	(832.26)	(639.01)	(2,634.69)	(2,072.82)	(2,973.03)
4	कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाम/(हानि)	(832.26)	(639.01)	(2,634.69)	(2,072.82)	(2,973.03)
5	अविधि देत कर वासक अपन (हानि)	(832.26)	(639.01)	(2,634.69)	(2.072.82)	(2.073.03)

Sh T Thi 8. pui

Sec mo sh pu the 1. 1.1

> 201 in la ar en .03.20 279.

> > 19.

13. 13. 473.8

762.6 0.0 0.0

any at the

2

ith Stock financia

Limited Sd/n Goyal

Director